

TEST CODE 6 1 4 3 0 2

FIAS - MGP 2023 - GS PAPER 4 FLT #8

Time Allowed : Three Hours  
समय : तीन घंटे

ForumIAS

Maximum Marks : 250  
अधिकतम अंक : 250

## GENERAL STUDIES / सामान्य अध्ययन

Name Of Candidate परीक्षार्थी का नाम	PATEL MINULKUMAR		
Roll No./अनुक्रमांक	1910077365	Medium/माध्यम	English <input checked="" type="checkbox"/> हिंदी <input type="checkbox"/>
Center Code/परीक्षा केंद्र	1901	Date/दिनांक	3/09/2023

\*Center Code : For Online - 1900 / Delhi : Karol bagh - 1901, ORN - 1902, Mukharji Nagar - 1903 / Patna : Boring Rd. - 2001 / Hyderabad : Jawahar Nagar - 2101

INDEX TABLE / अनुक्रमणिका			INSTRUCTION / अनुदेश	
Q. No. प्र.सं.	Max. Marks अधिकतम अंक	Marks Obtained प्राप्तांक	1. Please do furnish Name, Email, Roll No. and Mobile in the answer sheet. कृपया उत्तर-पुस्तिका में नाम, ईमेल, रोल नंबर और मोबाइल नंबर भरें।	
1			2. There are TWELVE questions printed in ENGLISH & HINDI, all questions are compulsory. उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी / हिंदी में बारह प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।	
2			3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न / भाग के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं।	
3			4. Answers must be written in the medium authorized in the admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. उत्तर प्रवेश पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जो कि दिए गए स्थान में इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।	
4			5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum Answer Booklet must be clearly Struck off. प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि निर्दिष्ट हो, का पालन किया जाए। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गये किसी भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को स्पष्ट रूप से काट दें।	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Total/कुल अंक	250		<b>For Student Only / केवल परीक्षार्थी प्रयोग हेतु</b>	
Examiner's Discretion/मूल्यांकन कर्ता का विवेक :			Start Time/प्रारंभ करने का समय :	End Time/समाप्त करने का समय :
			2:00 PM	5:05 PM
Total Marks/कुल अंक :			Mode Of Examination/ परीक्षा की विधि :	Online/ऑनलाइन <input type="checkbox"/> Offline/ऑफलाइन <input checked="" type="checkbox"/>
*Examiner's Discretion is the marks awarded at the discretion of the examiner based on your overall impression, on the basis of (but not limited to) your handwriting, presentation, use of diagrams, flowcharts, facts and figures or absolutely anything that he/she liked in your copy. मूल्यांकन कर्ता का विवेक अंक, आपकी लिखावट, प्रस्तुति, आरेखों के उपयोग, फ्लोचार्ट, तथ्यों और आंकड़ों या समय रूप किसी अन्य विषय वस्तु, जो मूल्यांकन कर्ता को आपकी कॉपी में पसंद आयी के आधार पर (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) पर दिए गए अंक हैं।			<b>For Office Use Only / केवल कार्यालय प्रयोग हेतु</b>	
			ECN CODE/ ईसीएन कोड :	EG/ईजी : ① ② ③ ④ ⑤
				Evaluation Date/ मूल्यांकन तिथि :



**Note:** Students are expected to incorporate suggestions from the solution provided in the answers. Discussion classes for the tests are also available online in your portal to aid in your preparation. Further, students are requested to see the good copies of the tests and learn from them. You can also discuss your copy with a Mentor and discover ways and means to improve your answers, or if you have any issues with this test / copy. Asks specific questions, to get specific answers.

---

## EXAMINER'S REMARKS

ForumIAS

---

### CRITERIA FOR THE FEEDBACK SECTION AT THE END OF EACH QUESTION


1. **AWIS = Answered What is Asked.** This means whether you have addressed the core demand of the question or not. Addressing the core demand of the question gets you an objectively fair score. It is examiner's perception if you have understood the question and if you know the answer in the first place. Creative answer writing, sometimes missing the core demand, may fetch very high or very low scores, and exposes your answer to the subjectivity of the examiner.
2. **CD & VA = Content Density & Value Addition.** Examiner will evaluate the quality and quantity of your content in the answer. In the same word limit and space limit have you (a) written what is asked (b) gone beyond what is asked (c) enriched answers through combination of ( but not all!) suggestions, ideas, quotes, flowcharts, diagrams, facts and figures, data etc. This affects objective components of assessment.
3. **S & F = Structure & Flow** = Whether you have structured your answer properly or not. Whether the answer has been broken into parts and sub-parts and each part has been addressed appropriately or not. Whether the flow of the answer is maintained. Affects both subjective and objective components of assessment.
4. **P & R = How your answer performs on the criteria of presentation, ease of read, clarity and apparent effort** in writing the answer. This affects the subjective components of assessment.

Section - A

Q.1) a) Celebrity endorsements raise pertinent ethical concerns about responsibility that delve into the realm of ethical considerations of social influence that run deeper than mere surface appeal. In this context, suggest measures to tackle the ethical challenges of celebrity brand endorsements. (10 marks, 150 words)

सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट/परांकन जिम्मेदारी के बारे में प्रासंगिक नैतिक विचारों को उठाते हैं जो सामाजिक प्रभाव के नैतिक विचारों के दायरे में आते हैं जो महज सतही अपील से कहीं अधिक गहरे होते हैं। इस संदर्भ में, सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट/परांकन की नैतिक चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएं। (10 अंक, 150 शब्द)

Social influence is change in people's attitude, behavior and views through external agents in society. Celebrities play important role in social influence.





people.

① Proper warning of adverse effect of using products like sin goods

② value awareness among celebrity before participating in advertisement (i.e. It may impact their image as a person)

Tackling ethical challenges of celebrity brand ownership

③ celebrity must not derogate dignity of their character by being carried away by profit motive (e.g. Kant's categorical imperative)

Celebrity endorsement on one hand is profemian (allowed under freedom of profemian (Article 19(1)(g))), but also on act of social influence, celebrities must look at negative aspect of the job, too.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



b) Embracing a scientific mindset involves setting aside impulsive inclinations in favor of the pursuit of truth. In your view, how does the integration of scientific thinking contribute to addressing contemporary challenges and promoting societal progress? How can we effectively cultivate a scientific attitude in society? (10 marks, 150 words)

वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाने में सत्य की अनुसरण के पक्ष में आवेगपूर्ण प्रवृत्ति को अलग रखना शामिल है। आपके विचार में, वैज्ञानिक सोच का समाकलन समकालीन चुनौतियों से निपटने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में कैसे योगदान देता है? हम समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से कैसे विकसित कर सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

Scientific mindset and thinking involves cultivation of objectivity, rationality and informed decision making.  
Article 51A (Fundamental duties) calls for developing scientific temper.

Scientific thinking to address today's challenges and promoting social progress

- ① To discard notion of purity and pollution towards people based on caste, gender, race, religion, etc.
- ② To embrace tolerance towards own mistake (e.g. own vices and courage to correct them)
- ③ To remove practices like animal sacrifice,



Superstition.

- ④ TO educate children while not being prey to social vices like child labour, dowry, early marriage, etc
- ⑤ to organize occupation on scientific line (eg. Animal Husbandry)

Cultivating scientific attitude

- ① Education for rational thinking
- ② Bringing in people of repute to discard decadent practices
- ③ using advertisements to socially influence people against social vices.
- ④ Promoting critical thinking to question superstition.

scientific thinking is vaccine against societal decadence of superstition.

### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.2) a) In the realm of professional conduct, ethics plays a role that tends to go far beyond fulfilling the roles and responsibilities of the job with diligence and honesty. But some people consider professional competence as the only critical requirement for a job. If faced with a choice, who would you prefer to hire - someone with professional competence or one with strong moral values? (10 marks, 150 words)

पेशेवर आचरण के क्षेत्र में, नैतिकता एक ऐसी भूमिका निभाती है जो परिश्रम और ईमानदारी के साथ नौकरी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने से कहीं आगे तक जाती है। लेकिन कुछ लोग पेशेवर योग्यता को नौकरी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते हैं। यदि आपको किसी विकल्प का सामना करना पड़ता है, तो आप किसे नियुक्त करना पसंद करेंगे - पेशेवर योग्यता वाला व्यक्ति या दृढ़ नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति? (10 अंक, 150 शब्द)

Professional competence refers to field specific qualification and aptitude, moral values are guiding force for a person to make right choices.

In professional conduct existence of professional competence and moral values are indispensable.

In case of choosing either, I would prefer person with moral values as :-

① As C.S Lewis says "education without values make person more cleverer devil" → therefore competent person without values would involve himself in vices of corruption, misgovernance, etc



② Person with moral values of integrity, dedication to work, etc can be made professionally competent.

③ Competence without moral values would lead to corporate misgovernance  
 ↳ would make such competence useful for any organization.

④ Hiring an employee is eventually aimed at generating public good or serve organisational purpose  
 ↳ person with compromised values is useless for it.

↳ Knowledge without character is a "social sin" - ब्रह्मवि.

### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS



b) Patriotism can hold different meanings for different people, often shaped by personal experiences and convictions. What does patriotism mean to you? Explain narrating incidents from your life when you exhibited patriotism. (10 marks, 150 words)

देशभक्ति अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ रख सकती है, जिसे अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और दृढ़ विश्वासों द्वारा आकार दिया जाता है। आपके लिए देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? अपने जीवन की उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जब आपने देशभक्ति का प्रदर्शन किया था। (10 अंक, 150 शब्द)

Patriotism is about having affection for one's own country.

for me patriotism is about :-

- ① To act as a active citizen who understand his duties like paying taxes, enduring fraternity and tolerance for all people.
- ② To act in any domain, public or private, as a person with moral conscience and ethical values of empathy, integrity, selflessness.
- ③ To act in a manner which doesn't hurt someone's feelings based on religion, caste, sex, ethnicity, etc.



④ To act and strive towards excellence to bring country and its people pride.

## Personal incidents showing patriotism

① I participated in voluntary work for food distribution and enrolling people on COWIN platform for vaccination in my village during COVID.

② I was involved in teaching village children around areas near my college.

③ As I cultivated ethos of NCC, as being cadet, to train myself for social work as well as future participation in efforts when country is in need.

patriotism and having affection for motherland are prime virtues of a person.

### Feedback

(For OFFICE use only)

	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.3) a) Max Weber's concept of bureaucracy was developed in the early 20th century, but it still influences administrative structures today. In what ways do you see Weberian bureaucracy as relevant in today's rapidly changing world? (10 marks, 150 words)

मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुई थी, लेकिन यह आज भी प्रशासनिक संरचनाओं को प्रभावित करती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में वेबेरियन नौकरशाही को आप किस प्रकार प्रासंगिक मानते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

Max Weber gave concept of bureaucracy as a system getting authority through legal ways. It has significant features like rules and regulations based working, impersonality, objectivity, etc.

- positives of Max Weber's bureaucracy
- ① Impersonality address equality before the law
  - ② Following rules and regulations ⇒ ensure rule of law in constitutional democracy
  - ③ Merit based recruitment ensures efficiency and effectiveness
  - ④ Seniority based promotion reduce favouritism and discretion
  - ⑤ Salary in money breaks chains of feudalism



① Rigidity (eg). a girl died of hunger in Jharkhand when food was not issued without MADHAR

② Seniority based promotion discourage innovation and low work

Some issues in Max Weber's conception

③ Merit is not of one's own making, but also depend on social background (10 100% merit based recruitment may not necessarily vulnerable selections)

④ Impersonality may become a robotic thing by ignoring empathy.

Jardor Patel called for democratic ways of administration while giving speech to 1st IAS batch on 1st April, 1947.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



b) "Global challenges often test the ethical fiber of nations, urging them to channel narrow pursuit of national-interest into an enlightened self-interest." Enumerating the various ethical principles underlying the concept of enlightened national-interest examine its efficacy in helping nations navigate the fine line between pursuing their strategic interests and upholding ethical principles, particularly in times of conflict? (10 marks, 150 words)

"वैश्विक चुनौतियाँ अक्सर राष्ट्रों के नैतिक ताने-बाने का परीक्षण करती हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय-हित की संकीर्ण खोज को प्रबुद्ध स्व-हित में बदलने का आग्रह करती हैं।" प्रबुद्ध राष्ट्रीय-हित की अवधारणा में निहित विभिन्न नैतिक सिद्धांतों को गणना करते हुए, राष्ट्रों को अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के बीच सूक्ष्म लाइन (fine line) को मार्गनिर्देशन के लिए मदद करने में इसकी प्रभावकारिता की जांच कीजिए, खासकर संघर्ष के समय में? (10 अंक, 150 शब्द)

Enlightened national interest may be defined as adherence to ethical principle while upholding national interest. they are ethical guidance against narrow self-interest.





Countries is a general doctrine

↳ ④ Thomas Aquinas just war theory

(war as last resort and concern for prisoners of war and civilians)

Efficacy of enlightened national interests

① Ensuring mutual peace by respecting each other's sovereignty.

② Justice can be ensured while balancing needs of development of developing countries (ex. CBDR)

③ Just war principle provides right to defend oneself.

to pursue national interest and enlightenment Jimmi Hendrix gives invaluable advice:

"When power of love overcomes love of power, world will know peace."

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.4) a) In the realm of governance, a crucial aspect is the art of persuasion. The qualities that make civil servants proficient persuaders empower them to fulfill their responsibilities in an effective manner. Discuss with illustrations. (10 marks, 150 words)

शासन के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण पहलू अनुनय की कला है। वे गुण जो सिविल सेवकों को कुशल प्रेरक बनाते हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

Persuasion is deliberate act aimed at changing one's attitude, behavior and opinions.

Qualities making civil servants good persuader and fulfil their responsibility are :

① Compassion for people

eg. Armstrong Pame felt need for road for people. He contributed his own money to attract people's participation

② Dedication to service

eg. Its permission Iyer himself cleaned two-pit toilet to persuade people under Swachha Bharat mission



### ③ Innovation

eg. ITS Krishna Kumar started to celebrate girl child-birth in Haryana, worst hit state with low child-fer ratio.

### ④ Leading by example of own

eg. ITS Divya Devrajan learned good language to work for tribal welfare and to persuade other officers to work hard.

persuasion is indispensable tool for civil servants to fulfill their responsibilities and to uphold public trust.

#### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



b) Differentiate between the following:

(10 marks, 150 words)

- i. Conscientiousness and Conscience
- ii. Gratitude and Gratification

निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए :

(10 अंक, 150 शब्द)

- i. अंतर्विवेकशीलता और विवेक
- ii. कृतज्ञता और तृप्ति

①

Forum IAS

(ii)

Gratitude

gratification

① Act of showing reverence for something good happen to you.

① Act of self-indulgence or taking unfavourable advantage for own pleasure.

② It is about being grateful

② It is about making someone to act in your favour.

③ example →

→ President Draupadi murmuji cleaned corridor of temple in her village after she was elected as president.

③ example →

→ A corrupted officer Pooja Singh caught for taking bribe and laundering money

### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS



Q.5) a) Corruption has multifaceted implications. Some consider it an undeniable vice, while others contend it to be an unavoidable necessity for navigating the bureaucratic complexities. In your opinion, does corruption oil or corrode the gears of development? Substantiate your arguments. (10 marks, 150 words)

भ्रष्टाचार के बहुआयामी प्रभाव होते हैं। कुछ लोग इसे एक निर्विवाद बुराई मानते हैं, जबकि अन्य इसे नौकरशाही जटिलताओं से निपटने के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता मानते हैं। आपकी राय में, क्या भ्रष्टाचार विकास के पथ को प्रेरित करता है या बाधित करता है? अपने तर्कों को प्रमाणित कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

Corruption is an act of misuse of one's power or authority. Corruption has become egregious vice in bureaucracy derailing civil servant from path of rectitude.

- Implications of corruption
- ① violating dignity of public services
  - ② erosion of trust in public services
  - ③ dereliction of duty by public servant
  - ④ Upending public good for private gain
  - ⑤ Keeping investment away from country (e.g. in licence-raj), foreign country were afraid of invest in India



Corruption can't be endorsed by saying it is that great bureaucracy. It certainly is vice that corrodes years of development.

- ① Economic Survey (2017) called corruption as prime reason for lack of development in Resource rich regions (eg. Jharkhand)
- ② It stops intended benefits of welfare scheme (eg. Pooja Singhal took bribe in MANREGA grants → violating rights of people,
- ③ It goes against right to corruption free administration under Article 21.

Public servants must not put any conditionality to render their services, otherwise it would degenerate ethos of service.

### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



b) Ethical hacking and malicious hacking stand as divergent paths with distinct intentions and consequences. As technology advances, it becomes imperative to comprehend the nuances that set these practices apart in the cybersecurity landscape. In this perspective, elucidate the principles that differentiate ethical hacking and malicious hacking. (10 marks, 150 words)

एथिकल हैकिंग और मालिसिअस (malicious) हैकिंग के अलग-अलग इरादों और परिणामों के साथ अलग-अलग मार्ग हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, उन बारीकियों को समझना अनिवार्य हो जाता है जो साइबर सुरक्षा परिदृश्य में इन प्रथाओं को अलग करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, उन सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए जो एथिकल हैकिंग और मालिसिअस (malicious) हैकिंग को अलग करते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

Ethical hacking is hacking done for the purpose of finding out glitches in software. Malicious hacking is done to exploit those glitches for own benefit.

With increased digitalisation it is imperative to have robust cyber-security. For it, ethical hacking becomes important.

Ethical hacking	malicious hacking
① <u>Intent</u> to find out glitches which could be exploited	① intent to exploit glitches for illicit money-making
② done for <u>common</u> <u>good</u>	② done for <u>private</u> <u>good</u> .

③ Act of service

③ Act of 'commerce without morality' and it is social and legal sin.

④ It boost capacity of cyber agencies while detecting glitches.

④ It threaten cybersecurity

Core principles of Ethical hacking

Harm minimization i.e. done to reduce commu harm

regulatory oversight

with right purposes or ends (eg utilitarianism)

Ethical hacking is needed for robust cybersecurity.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.6) What does each of the following quotation mean to you?

- a) "Our greatest ability as humans is not to change the world, but to change ourselves."  
- Mahatma Gandhi (10 marks, 150 words)

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके लिए क्या अर्थ है?

- "मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है।"  
- महात्मा गांधी (10 अंक, 150 शब्द)

Mahatma Gandhi puts emphasis on idea of changing ourselves in this quote. According to him, change should start from ourselves, where lies our best ability.

→ He advocates that we should become the change which we want to see.

For example → Dushroth Manji (A mountain man) carved a hill to create way for women to go for water (as his own wife died)

→ our ability to change ourselves is more as we have autonomy or

our own

eg. IAS Permeskwaron Iyer cleaned two-pit toilet to enforce swacha bharat mission for himself.

→ More over PM Modi took first vaccine shot to symbolize resistance against vaccine hesitancy in covid.

→ Mother Teresa also said that "I can't change whole world, but I can create a stream to create ripples"

therefore we should best utilize our ability to change ourselves to set an example for chain reaction of change.

**Feedback**  
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS



b) 'People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don't know is what what they do does.' Michel Foucault (10 marks, 150 words)

'लोग जानते हैं कि वे क्या करते हैं, अक्सर वे जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे जो करते हैं वह क्या करता है।' मिशेल फाउकॉल्ट (10 अंक, 150 शब्द)

This quote highlight ignorance of general populace about unintended consequences of their actions.

① When USA utilised nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki, they justified for national security  
↳ but it created arms race

② This quote is relevant in our society of unsustainable usage of resources

↳ e.g. unmindful water utilisation would create water scarcity in future.

③ we may have understanding of reasons of our actions, but we must be cognisant of unintended negative consequences of our actions

(eg. cheating in exam may benefit the cheater, but violate rights of honest candidates appearing in exam)

④ Similarly persons involved in corporate misgovernance (eg. Lehman Brothers in financial crisis, 2008) ignored the impact of their actions on other people.

Therefore, John Michael Foucault by the quote warns us to correct our ignorant behavior, as ignorance is a sin.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



c) "I slept and dreamt that life was a joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was a joy." Rabindra Nath Tagore (10 marks, 150 words)

"मैं सो गया और सपना देखा तो जीवन आनंदमय था। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने अभिनय किया और देखा, सेवा खुशी थी।" रवीन्द्रनाथ टैगोर। (10 अंक, 150 शब्द)

Rabindra Nath Tagore through

this quote tells us that service is act to gain happiness in life

> many people their life as a service to humankind

e.g.) Mother Teresa

) ITS Ashok Khemka.

> Act of service inherently brings joy in life as working for other brings fulfillment

For example. Dr. Verghese Kurien said

"If you work for yourself, pleasure is transitory. But if you work for others, happiness is long lasting."

> serving others bring smile on their face, of which further brings happiness to the person who is serving.

eg. when asked importance of service to Swami Vivekananda, he said 'service of jiva is service of shiv'

selflessness in public services and ethics of ethical service are key principle to get a joyful and purposeful life in civil services.

### Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



**Section - B**

Q.7) Even though the incidents of wars are detrimental to all, it is the women who have been the worst sufferers of all forms of human conflicts. Historical evidences from throughout the globe have highlighted the skewed vulnerability of women to violence in all its manifestations. In the medieval period, the situation of women remained particularly vulnerable; treated as second class citizens in comparison to men, their condition became particularly deplorable during wartime excesses. Invariably, women were considered as part of the plunder, leading to their sexual and psychological exploitation. Similarly, during the second world war, the then Imperial Japanese Army exploited women, pushing them into sexual slavery. These women were euphemistically termed as comfort women. The objectification of women as a commodity for comfort made their exploitation complete and absolute. Issue of comfort women, one of the largest incidents of human trafficking, continues to be a diplomatic flash point between South Korea and Japan.

In contemporary times too, we get to see the manifestation of various social crimes against women. Dharmendra, a young District Magistrate, posted in Khainom, capital of Ranipur recently became witness to such an incident. Ranipur is one of the North Eastern states of India. Ranipur has a rich ethnic diversity consisting of both tribal and non-tribal population. Issues such as access and ownership over resources, settling of outsiders (non-tribals) in tribal areas, dominance/ influence over government appointments etc., have remained the bone of contention between the tribal and non-tribal people. However, the matters came to a head when the demands from the non-tribal community for being recognized as tribals started gaining force. These demands were fiercely opposed by the tribals fearing that it will reinforce the positions of non-tribals; allow them to buy land in tribal areas and therefore will marginalize the already backward tribal community in the state. Within no time the situation took a communal turn. Khainom was particularly worst hit. In addition to the incidents of plunder and loot, Khainom gained global attention when a video of a tribal girl being sexually assaulted by non-tribal men surfaced in the social media. The video clearly depicted a group of 20-25 men molesting a tribal girl in front of entire village. A police car, and few police personnel were also visible in the video. The passivity of armed police personnel towards safeguarding the women was being severely criticised across all quarters. Even though this particular incident came into public domain, it was by no measure an isolated happening. Many such occurrences of targeting women from both the communities were reported throughout Ranipur.

The political leadership of the state has taken cognizance of the events in Khainom. Dharmendra has been instructed to prepare a holistic plan to avoid such incidents in the future.

- What recommendations should Dharmendra make to create a safe environment for the women?
- What are the factors that have led to victimization of women, especially during conflicts?

(20 marks, 250 words)

यद्यपि युद्ध की घटनाएँ सभी के लिए हानिकारक हैं, फिर भी सभी प्रकार के मानवीय संघर्षों में महिलाएँ ही सबसे अधिक पीड़ित रही हैं। दुनिया भर के ऐतिहासिक साक्ष्यों ने हिंसा के सभी रूपों में महिलाओं की विषम संवेदनशीलता को उजागर किया है। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से असुरक्षित रही; पुरुषों की तुलना में उन्हें दायम दर्जे का नागरिक माना जाता था, युद्ध के दौरान ज्यादतियों के दौरान उनकी स्थिति विशेष रूप से दयनीय हो गई थी। हमेशा, महिलाओं को लूट का हिस्सा माना जाता था, जिससे उनका यौन और मानसिक शोषण होता था। इसी तरह, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन शाही जापानी सेना ने महिलाओं का शोषण किया, उन्हें यौन दासता में धकेल दिया। इन महिलाओं को मंगलभाषी ढंग से भोग की महिलाएँ कहा जाता था। भोग की वस्तु के रूप में महिलाओं के वस्तुकरण ने उनके शोषण को पूर्ण और निरपेक्ष बना दिया। मानव तस्करी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, भोग की महिला का मुद्दा, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक कूटनीतिक विवाद बना हुआ है।




समसामयिक समय में भी हमें महिलाओं के प्रति विभिन्न सामाजिक अपराधों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। राजधानी रानीपुर के खैनोम में तैनात युवा जिलाधिकारी धर्मद्र हाल ही में ऐसी घटना के गवाह बने। रानीपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। रानीपुर में एक समृद्ध जातीय विविधता है जिसमें आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों आबादी शामिल है। संसाधनों तक पहुंच और स्वामित्व, आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों (गैर-आदिवासियों) का बसना, सरकारी नियुक्तियों पर प्रभुत्व/प्रभाव आदि जैसे मुद्दे आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों के बीच विवाद की जड़ बने हुए हैं। हालांकि, मामला तब तूल पकड़ गया जब गैर-आदिवासी समुदाय की ओर से आदिवासियों के रूप में पहचाने जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इन मांगों का आदिवासियों ने इस ढर से जमकर विरोध किया कि इससे गैर-आदिवासियों की स्थिति मजबूत होगी; उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति दे दी जाएगा और राज्य में पहले से ही पिछड़े आदिवासी समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। देखते ही देखते स्थिति ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। खैनोम विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। लूट-पाट की घटनाओं के अलावा, खैनोम ने तब वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब एक आदिवासी लड़की के साथ गैर-आदिवासी पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि 20-25 लोगों का एक समूह पूरे गांव के सामने एक आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। वीडियो में पुलिस की एक गाड़ी और कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र पुलिस कमियों की निष्क्रियता की हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही थी। मले ही यह विशेष घटना सार्वजनिक डोमेन में आ गई, लेकिन यह किसी भी तरह से एक अलग घटना नहीं थी। पूरे रानीपुर में दोनों समुदायों की महिलाओं को निशाना बनाने की ऐसी कई घटनाएं सामने आईं।

राज्य के राजनीतिक नेतृत्व ने खैनोम की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए धर्मद्र को एक समग्र योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

- महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए धर्मद्र को क्या सिफारिशें करनी चाहिए?
- वे कौन से कारक हैं जिनके कारण महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, विशेषकर संघर्षों के दौरान? (20 अंक, 250 शब्द)

women are most vulnerable section in case of conflict, as seen in case of given case study.





(A) Recommendation by Dharmendra

# short term

- ① Bringing victims of sexual violence at proper platform to address their concern (Zero FIR  $\xrightarrow{\text{then}}$  rehabilitation of victims)
- ② Police protection to victims while investigation is done, and taking steps to catch perpetrators
- ③ Arranging non-polison police officers as head of respective block level and giving strict warning against any complacency. (ensuring lady officers in command)
- ④ Arranging meeting with tribals and non-tribals to ensure law and order, and safety of women

long-term

- ① Inclusive police forces and lady officers be recruited to meet complaints of women.
- ② Surveillance setup and making available schemes like Alhayan (Govt. of Andhra) for women in distress and need.
- ③ Quick resolution of complaints and setting up women police station.

b

① Lack of women safety measures (e.g. women assaulted in Raipur)

② Legacy issues like women trafficking making them targets during conflict

Factors leading to victimization of women in conflict



③ complicity of police officers or organised exploitation by security forces (eg. Imperial Japanese Army assaulting Chinese women in World War-II)

④ lack of self-defence training to women

⑤ Toxic masculinity as source of crime against women.

Crime against women is most heinous form of crime. It can be countered by two ways:

① Strong deterrence ② moral education of Compassion, dignity and equality.

ForumIAS

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick  
marks in the above  
table.

Here G is Good, A is  
Average and P is  
Poor.

TOTAL MARKS	
----------------	--



Q.8) Manoj is a young boy studying in class tenth of Nav Bharti school. Even though Manoj is pursuing science stream, as desired by his parents, he has always been more inclined towards arts. His skills in various performing arts viz. music, dance etc., has always received high praises from his friends, teachers and relatives alike. It was his desire to make a name for himself in this field. However, when Manoj informed his parents about his dream, their reaction though disappointing, did not come as a surprise. His parents who have always desired to see him as an engineer, were vehemently against his wish to pursue performing arts as a career option. His father explained him that by being an engineer he can lead a financially rewarding life, which they themselves could never afford. Further, his father also belittled his dream by saying that music and dance did not constitute an honourable profession. Manoj's father also pointed out to Manoj that Praveen, Manoj's cousin, had settled with a high paying job after completing his engineering degree from a renowned university.

Though Manoj never enjoyed studying mathematics and science, he did not want to go against his parent's wishes. Therefore, after completing his board exams, Manoj was sent to Pota. Over the years the reputation of Pota as the coaching hub for entrance examinations had grown far and wide. The determination of Manoj's parents to make their son an engineer was undeterred despite the high fees of the coaching centres in Pota. Therefore, in order to pay the high fees of the coaching institute, Manoj's parents mortgaged their only asset, the ancestral family land. Manoj tried to convince his father against it, but to no avail.

In order to fulfil his parent's aspiration, Manoj started working hard and giving his best. However, despite his consistent and honest hard work, his performance in mock tests remained sub-par and could neither meet the expectations of the teachers in Pota nor that of his parents at home. In addition, due to the alienation from the environment of school, friends, and family Manoj started remaining depressed. Further, in Pota he did not get anytime for pursuing his hobbies in performing arts. He started keeping to himself and even avoided talking to his parents on phone.

Even after two years of gruelling coaching regime, Manoj's condition remained unchanged. The situation came to such a pass that Manoj used to be in a constant fear of failure in the annual Engineering Entrance Examination (EEE). He was aware about the high financial stakes that the exam bore for his family. It was under this pressure that Manoj gave the EEE.

Finally, the results were out, and Manoj was unable to make it to any prestigious engineering college. Even though the result was on the expected lines for Manoj, the realisation that he has failed in the examination crushed him mentally. What made the matters worse was the disappointment that Manoj noticed in his parent's voice over the phone. Manoj felt like a criminal in his mind who had squandered the scarce family resources. Unable to bear the pressure, Manoj took a fatal jump off the building of his hostel. He left behind a note apologising to his parents for being unable to fulfil their aspirations.

- What are the qualities lacked by Manoj's parents?
- What qualities in a person can prevent him/her from taking the extreme step of committing suicide?
- What are the various ethical issues with the education system as depicted in the case study?

(20 marks, 250 words)

मनोज एक युवा लड़का है जो नव भारती स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ता है। भले ही मनोज अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार विज्ञान स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका रुझान हमेशा कला की ओर अधिक रहा है। संगीत, नृत्य आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में उनके कौशल को हमेशा अपने दोस्तों, शिक्षकों और रिश्तेदारों से समान रूप से उच्च प्रशंसा मिली है। उनकी इच्छा इस क्षेत्र में नाम कमाने की थी। हालाँकि, जब मनोज ने अपने माता-पिता को अपने सपने के बारे में बताया, तो उनकी प्रतिक्रिया निराशाजनक थी, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं थी। उनके माता-पिता, जो हमेशा उन्हें एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे, अभिनय कला को करियर विकल्प के रूप में अपनाने की उनकी इच्छा के सख्त खिलाफ थे। उनके पिता ने



उन्हे समझाया कि एक इंजीनियर बनकर वह आर्थिक रूप से पुरस्कृत जीवन जी सकता है, जिसे वे स्वयं कभी नहीं कर सके। इसके अलावा, उनके पिता ने भी यह कहकर उनके सपने को छोटा कर दिया कि संगीत और नृत्य कोई सम्मानजनक पेशा नहीं है। मनोज के पिता ने मनोज को यह भी बताया कि प्रवीण, मनोज का चचेरा भाई, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद उच्च वेतन वाली नौकरी कर रहा है।

हालांकि, मनोज को गणित और विज्ञान पढ़ने में कभी मन नहीं लगा, लेकिन वह अपने माता-पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। इसलिए, बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद, मनोज को पोटा भेज दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्र के रूप में पोटा की प्रतिष्ठा दूर-दूर तक बढ़ी है। पोटा में कोचिंग सेंटरों की ऊंची फीस के बावजूद मनोज के माता-पिता का अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का दृढ़ संकल्प अडिग था। इसलिए, कोचिंग संस्थान की उच्च फीस का भुगतान करने के लिए, मनोज के माता-पिता ने अपनी एकमात्र संपत्ति, पैतृक पारिवारिक जमीन गिरवी रख दी। मनोज ने अपने पिता को इसके खिलाफ समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अपने माता-पिता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, मनोज ने कड़ी मेहनत करना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू कर दिया। हालांकि, उनकी लगातार और ईमानदार कड़ी मेहनत के बावजूद, गॉक टेस्ट में उत्तक प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वह न तो पोटा में शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और न ही घर पर अपने माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा कर सका। इसके अलावा स्कूल, दोस्तों और परिवार के माहौल से अलगाव के कारण भी मनोज उदास रहने लगे। इसके अलावा, पोटा में उन्हें प्रदर्शन कला में अपने शौक पूरे करने के लिए समय नहीं मिला। वह अपने तक ही सीमित रहने लगा और यहां तक कि अपने माता-पिता से फोन पर बात करने से भी कतराने लगा।

दो साल की कठिन कोचिंग व्यवस्था के बाद भी, मनोज की स्थिति अपरिवर्तित रही। स्थिति ऐसी आ गई कि मनोज को वार्षिक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ईईई) में असफल होने का डर सताता रहता था। वह इस बात से अवगत थे कि परीक्षा उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी वित्तीय जोखिम पैदा करने वाली थी। इसी दबाव में मनोज ने ईईई की परीक्षा दी।

अंत में, परिणाम सामने आए और मनोज किसी भी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने में असमर्थ रहे। मले ही परिणाम मनोज के लिए अपेक्षित था, लेकिन इस एहसास ने कि वह परीक्षा में असफल हो गया है, उसे मानसिक रूप से कुचल दिया। मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात वह निराशा थी जो मनोज ने फोन पर अपने माता-पिता की आवाज में देखी। मनोज अपने मन में एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था जिसने परिवार के दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद कर दिया था। दबाव सहन करने में असमर्थ, मनोज ने अपने छात्रावास की इमारत से छलांग लगा दी। उन्होंने अपने माता-पिता से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होने के लिए माफी मांगते हुए एक नोट छोड़ा।

- मनोज के माता-पिता में किन गुणों की कमी है?
- किसी व्यक्ति के कौन से गुण उसे आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाने से रोक सकते हैं?
- केस स्टडी में दर्शाए अनुसार शिक्षा प्रणाली के साथ विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं? (20 अंक, 250 शब्द)

Students suicide led by  
undemocratic parenting and belittling  
wishes of students to pursue career  
of liking an common course of it.




- a) Qualities lacked by Manoj's parents
- ① objectivity → they belittled manoj's choice while comparing him against his well-paid cousin
  - ② Empathy → parents couldn't put themselves in manoj's condition
  - ③ democratic parenting → as they imposed their own choice on manoj
  - ④ temperance to respect manoj's choices.
  - ⑤ Awareness about music and dance as respectable career.
- b) Qualities in person which can prevent him/her from taking extreme step of committing suicide

(PT-2)

- ① Selflessness about one's own life and realising own life is not only meant for himself, but also for his family.
- ② Emotional Intelligence to maintain calmness and stoicism in failure.
- ③ temperance to bear pressure ~~and~~
- ④ Courage to resist fear of unforeseen situations.
- ⑤ respect for Kant's categorical imperative that one can't end his/her life, as life is uncompromisable possession of human.
- ⑥ Rational decision making that ending life will not solve the problems.





Forum IAS

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



**Q.9)** Rajendra has been appointed as the General Manager of South Eastern Zone of the Indian Railways. After taking charge of his new posting, one of the first major shortcomings that Rajendra found in his jurisdiction was the gross shortage of staff, especially at operational level. Given the sensitive nature and importance of railways, Rajendra immediately apprised his seniors in the ministry about this issue. In his report, Rajendra pointed out that shortages at various positions are leading to an over-stretched workforce, which may become detrimental for the security of the freight and the passengers. However, Rajendra's report fell on deaf ears and no action was taken by Railways in this regard.

As fate would have it, a devastating train accident took place at Salasore, which fell under Rajendra's jurisdiction. Around 300 lives were lost and more than 1000 passengers were injured. The accident sent shock waves across the country and serious questions were being raised on railway safety. Given the seriousness of the incident, immediately an internal fact-finding committee was constituted under Rajendra.

The internal committee completed its enquiry and prima facie found "human error in signaling" as the cause of the accident. The accident, as per the committee, happened when two trains which erroneously, due to faulty signaling, were on the same track; the collision between the two trains derailed some bogies; the derailed bogies collided with yet another train that was running on the parallel track. The fact-finding team also highlighted that Anand, who was in charge of signaling, was working continuously for more than 16 hours, instead of his regular 8 hours shift. The report concluded "lack of adequate staff" as one of the major reasons behind the accident.

The very next day Rajendra was summoned by his superior in the ministry. Rajendra's superior congratulated him on the good and timely work on the report. However, he also asked him to modify the report by removing "lack of adequate staff" as one of the causes of the accident, as it showed Railways in a poor light. His superior further hinted that a lenient approach from Rajendra will bode well for his career. He also promised that Rajendra's cooperation in the matter will have a positive bearing on his request for a study leave. Moreover, the superior also reasoned with Rajendra that a rigid attitude may not bode well for him and he might get ostracized within the rank and file. Further, to make things 'easy' for Rajendra, his superior advised him to report Anand's negligence as the cause of the accident. However, Rajendra is aware that Anand is a very sincere and hard-working employee. He came out of the Chairman's office, dejected and undecided on his next course of action.

- What are the ethical concerns associated with the case study?
- What are the options available with Rajendra?
- If you were at the place of Rajendra, which option would you choose and why?

(20 marks, 250 words)

राजेंद्र को भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। अपनी नई पोस्टिंग का कार्यभार संभालने के बाद, राजेंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र में जो पहली बड़ी कमी दिखी, वह थी कर्मचारियों की भारी कमी, खासकर परिचालन स्तर पर। रेलवे की संवेदनशील प्रकृति और महत्व को देखते हुए, राजेंद्र ने तुरंत मंत्रालय में अपने वरिष्ठों को इस मुद्दे से अवगत कराया। अपनी रिपोर्ट में, राजेंद्र ने बताया कि विभिन्न पदों पर कमी के कारण कार्यबल अत्यधिक बढ़ गया है, जो माल ढुलाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। हालाँकि, राजेंद्र की रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया और रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जैसा कि भाग्य को मंजूर था, सालासोर में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई, जो राजेंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता था। लगभग 300 लोगों की जान चली गई और 1000 से अधिक यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राजेंद्र के नेतृत्व में एक आंतरिक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया।




आंतरिक समिति ने अपनी जांच पूरी की और प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण 'सिग्नलिंग में मानवीय त्रुटि' पाया। समिति के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब दोषपूर्ण सिग्नलिंग के कारण गलती से दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गयी थीं; दो ट्रेनों के बीच टक्कर से कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए; पटरी से उतरे डिब्बे समानांतर ट्रैक पर चल रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गए। तथ्यान्वेषी टीम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आनंद, जो सिग्नलिंग का प्रभारी था, अपनी नियमित 8 घंटे की शिफ्ट के बजाय, 16 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम कर रहा था। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना के पीछे प्रमुख कारणों में से एक 'पर्याप्त कर्मचारियों की कमी' थी।

अगले ही दिन राजेंद्र को मंत्रालय में उनके वरिष्ठ अधिकारी ने बुलाया। राजेंद्र के वरिष्ठ ने उन्हें रिपोर्ट पर अच्छे और समय पर काम करने के लिए बधाई दी। हालाँकि, उन्होंने दुर्घटना के कारणों में से एक 'पर्याप्त कर्मचारियों की कमी' को हटाकर रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए भी कहा, क्योंकि इसमें रेलवे को खराब स्थिति में दिखाया गया था। उनके वरिष्ठ ने आगे संकेत दिया कि राजेंद्र का उदार रुख उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि इस मामले में राजेंद्र के सहयोग से अध्ययन अवकाश के उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, वरिष्ठ ने राजेंद्र को यह भी समझाया कि कठोर रूढ़ी उसके लिए अच्छा नहीं होगा और उसे रैंक और फाइल के भीतर बहिष्कृत होना पड़ सकता है। इसके अलावा, राजेंद्र के लिए चीजों को 'आसान' बनाने के लिए, उनके वरिष्ठ ने उन्हें दुर्घटना के कारण के रूप में आनंद की लापरवाही की रिपोर्ट करने की सलाह दी। हालाँकि, राजेंद्र जानते हैं कि आनंद एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती कर्मचारी हैं। वह निराश होकर और अपने अगले कदम के बारे में अनिर्णीत होकर अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर आये।

- केस स्टडी से जुड़ी नैतिक चिंताएँ क्या हैं?
- राजेंद्र के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- यदि आप राजेंद्र के स्थान पर होते, तो आप कौन सा विकल्प चुनते और क्यों? (20 अंक, 250 शब्द)

This case study brings in light classic dilemma of personal interest vs. public interest and safety for Rajendra.





(a) Ethical concerns associated with COK study

- ① Public interest (by unveiling cause of disaster as staff shortage) vs Personal interest for Rajendra → study → to get respectable job
- ② Reputation vs responsibility for Railways after the disaster
- ③ In corruptibility vs. obeying seniors for Rajendra
- ④ Issue of stressed work culture and tired employees inadvertently doing mistakes (eg. Anand did error)
- ⑤ Public Safety in jeopardy due to lack of appointment of staff.

(b) options available for Rajendra

① give in to the pressure of Jupiter and admitting 'staff shortage' as main cause of disaster.

② ~~not~~ mentioning mistake by Anand for accident as well as retaining staff shortage issue.

③ leaking report to media to create pressure on Indian Railways to fulfil staff demand.

(c) If I would have been at place of Rajendra, I would choose option 2 (i.e. retaining original report).

### Reasons

① For a public servant, personal interest are never primary choice.



② If ~~to~~ omit 'staff shortage' from report, same would become a cause to another accident.

↳ Hence, omission is amounting to dereliction of duty

③ Central reason for accident is 'staff shortage', only morning Anand responsible for it would lead to disproportionally punishing him despite his sincerity in the past

④ Reputation of Indian Railways in future would be hurt if staff shortage are not addressed

In words of Sardar Patel, dignity from rectitude would lower the dignity of civil services. Thus by, Rajendra must not be lured into swart future by act of omission which jeopardize people.

Forum IAS

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.10) Grander Neobar Island is one of the world's most important biodiversity hotspots. Covered by thriving rainforest, the Island hosts a vast diversity of flora and fauna, many of which are endemic in nature. The Island is also known for being home to some of the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). For years, the region has been preserved for its ecological and cultural importance. Besides its environmental richness, the Grander Neobar is also particularly unique for its geo-strategic importance. The position of the Island in the Indian Ocean makes it ideal for gaining strategic leverage over the country's adversaries in the region.

Grander Neobar Development Project (GNDP) is a security and infrastructure project proposed for the southern tip of the island. The project is important for economic benefits such as logistics, commerce, industry, and coastal tourism. GNDP includes an international container transshipment terminal, a greenfield international airport, township development, and a gas- and solar-based power plant together occupying over a large area in the island.

Though touted as vital for country's economic growth and strategic presence in the region, some NGOs have been protesting against the project for its high environmental cost. The NGOs claim that the project would require cutting down of more than 900,000 trees of the rainforest biome, which are a prime source of carbon sequestration. Further, the loss of tree cover will not only affect the flora and fauna on the island, but it will also lead to increased runoff and sediment deposits in the ocean, impacting the coral reefs in the area. Also, the influx of outside population is expected to impose a significant ecological pressure on the island and its surroundings. The PVTGs residing in the Island for centuries may lose their traditional rights over land, and may also face undue interference in their culture and practices. As per some experts, as PVTGs are secluded from mainland since time immemorial, a sudden contact with outside population may pose grave health risks in forms of various infections. It is also being highlighted that the project is in contradiction to the government's vision to promote a sustainable world and a climate friendly lifestyle.

However, the supporters of the project firmly believe that the project is essential, given its strategic importance for the country. The supporters of the project reason that since other countries also host several military bases in the region, India cannot afford to remain absent from this strategic backyard. Further, as per the advocates of the project, presence of a robust security infrastructure can check the oft-occurring incidents of piracy, cementing the country's role as the net security provider in the region. Moreover, the proponents of the development project argue that Grander Neobar is located close to one of the busiest choke points in the global trade route, and neglecting its development may run counter to country's trade and security interests. Also, as per a government think tank's report, the proposed port will allow Grander Neobar to participate in the regional and global maritime economy by becoming a major player in cargo transshipment and a delay in the same may have the effect of losing the competitive advantage.

a) What are the key ethical concerns present in the above case study?

b) According to you between the twin objectives of development and conservation what should be given more priority and why? (20 marks, 250 words)


ग्रैंडर नियोबार द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। समृद्ध वर्षावन से आच्छादित, यह द्वीप वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता का घर है, जिनमें से कई की प्रकृति स्थानिक हैं। यह द्वीप कुछ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का घर होने के लिए भी जाना जाता है। वर्षों से, इस क्षेत्र को इसके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए संरक्षित किया गया है। अपनी पर्यावरणीय समृद्धि के अलावा, ग्रैंडर नियोबार अपने भू-रणनीतिक महत्व के लिए भी विशेष रूप से अद्वितीय है। हिंद महासागर में द्वीप की स्थिति इसे क्षेत्र में देश के विरोधियों पर रणनीतिक लाभ उठाने के लिए आदर्श बनाती है।

ग्रैंडर नियोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जीएनडीपी) द्वीप के दक्षिणी सिरे के लिए प्रस्तावित एक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह परियोजना रसद, वाणिज्य, उद्योग और तटीय पर्यटन जैसे आर्थिक लाभों के लिए महत्वपूर्ण है।



जीएनडीपी में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और एक गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं, जो द्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर स्थित है। हालांकि इसे देश की आर्थिक वृद्धि और क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्यावरण और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि इस परियोजना के लिए वर्षावन बायोम के 900,000 से अधिक पेड़ों को काटने की आवश्यकता होगी, जो कार्बन पृथक्करण का एक प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा, वृक्षों के आवरण के नष्ट होने से न केवल द्वीप पर वनस्पतियों और जानवरों पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे समुद्र में अपवाह और तलछट के जमाव में भी वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित होंगी। साथ ही, बाहरी आबादी के आगमन से द्वीप और उसके आसपास महत्वपूर्ण पारिस्थितिक दबाव पड़ने की आशंका है। सदियों से द्वीप में रहने वाले पीवीटीजी भूमि पर अपने पारंपरिक अधिकार खो सकते हैं, और उन्हें अपनी संस्कृति और प्रथाओं में अनुचित हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, चूंकि पीवीटीजी प्राचीन काल से ही मुख्य भूमि से विलग निवास करते हैं, बाहरी आबादी के साथ अचानक संपर्क विभिन्न संक्रमणों के रूप में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इस बात पर भी प्रकाश डाला जा रहा है कि यह परियोजना एक स्थायी विश्व और जलवायु अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के विपरीत है। हालांकि, परियोजना के समर्थकों का भरोसा है कि देश के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह परियोजना आवश्यक है। परियोजना के समर्थकों का तर्क है कि चूंकि अन्य देश भी इस क्षेत्र में कई सैन्य अड्डों की मेजबानी करते हैं, इसलिए भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में अनुपस्थित रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, परियोजना के समर्थकों के अनुसार, एक मजबूत सुरक्षा बुनियादी ढांचे की उपस्थिति से समुद्री घुसपैठ की बार-बार होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में सकल सुरक्षा प्रदाता के रूप में देश की भूमिका मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, विकास परियोजना के समर्थकों का तर्क है कि गैंडर नियोजन वैश्विक व्यापार मार्ग में सबसे व्यस्त चोक पॉइंट्स में से एक के करीब स्थित है और इसके विकास की अपेक्षा करना देश के व्यापार और सुरक्षा हितों के विपरीत हो सकता है। इसके अलावा, एक सरकारी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बंदरगाह गैंडर नियोजन को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा और इसमें देरी से प्रतिस्पर्धात्मक अवसर खोने का असर हो सकता है।

- उपरोक्त मामले के अध्ययन में मौजूद प्रमुख नैतिक विचारें क्या हैं?
- आपके अनुसार विकास और संरक्षण के लक्ष्य उद्देश्यों में से किसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्यों? (20 अंक, 250 शब्द)





Q Key ethical concerns

- ① Environmental protection and conservation vs. Strategic interest of country.
- ② Economic development of country vs. threat to PVTGs with disease/cultural erosion.
- ③ Life of animals and trees vs. life of humans with economical well-being.
- ④ Prosperity of future generations (after development) vs. misery to current generations of PVTGs, tribes.
- ⑤ For government, it is dilemma to choose between interests of PVTGs or interest of country.
- ⑥ Cost of development and security concerns are not in interests of future generations owing to deforestation + climate change.

(b) According to me, both objectives development and conservation are important. Instead of giving blind priority to either, we need to outline important parameters which can be considered to make decision :-

① Consent of local populace (here PVTG) after comprehensively making them understand the main national concerns

↳ this is mandatory under EIA

② possibility of reconciliation between development and environment (i.e. sustainability)

③ Intergenerational gains/interests

④ National interests (as, if in future any possible violation of sovereignty and territorial integrity, future occupants of



territory would destroy PVTN Populations  
(As happened during colonialism)

Based on above considerations  
, in this case development can be given  
priority if →

- ① immediate threat to security
- ② content of PVTNs and mainstreaming their interests are at centre
- ③ rehabilitation of rare species and flora is provided for

If above conditions are unmet,  
such development would cause environmental  
disaster and Pain to PVTNs. Therefore,  
sustainable development and concern for

local populace while securing country's  
sovereignty on key rules to decide  
 this matter

"There is coexistence or no-existence"  
 - Brundland report

**ForumIAS**

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



**Q.11)** Mr. Gopal Mahto is the sitting Chief Minister of one of the most populous states in India. He is a young and dynamic leader, popular not just in his state but across the country. Many political analysts opine that he has the potential to become Prime Minister of India in future. One day, the CM was taking a review meeting of law-and-order situation in the state, with senior officials in the state capital. Suddenly he felt a light pain in his abdomen. The CM had been feeling such bouts of pain since a long time, but like always he neglected it this time too, and continued with the meeting. However, in the next few weeks, the intensity of pain increased and the CM was forced to see a doctor. After initial examination, the doctor gave some medicines and prescribed few tests. After few days, the report came and it showed that the CM is suffering from 'Liver Cirrhosis.' It was in the advanced stage and posed a threat to the life of Mr. Mahto. The doctor told that the only option was the liver transplant without any further delay.

In apprehension that it may create chaos among the general public, particularly the supporters of the CM and his party, it was decided to not make the news public. Only very few senior functionaries at the centre and state along with medical staff were aware of the situation. Meanwhile, the Health Minister of the State directed the State's Health Secretary to take necessary actions, coordinate with medical staff and arrange for liver transplant for the CM.

The next day, the Health Secretary called the State Director General (DG) Health, who is the competent authority, dealing with the matters related to organ transplantation in the state. The DG, Renuka was informed of the situation and directed to make immediate arrangement for liver transplant. However, Renuka told the Secretary that there is a laid down Standard Operating Procedures (SOPs) regarding organ transplantation. She informed him that there is already a patient named Sunil at first position in the waiting list, who also requires urgent liver transplant. The health secretary is also informed that Sunil is left with a very short time window for a successful transplantation. Sunil is 35 years old, a father of two, and the sole bread winner of the family of six that also includes his wife and aging parents. Sunil's family is of limited means and often found it rather difficult to cater even for their needs. Also, various medical costs associated with Sunil's conditions have further worsened the financial condition of the family.

Renuka further informs the secretary, as per SOP, the CM would be at the second position in the waiting list. As a matter of chance, Renuka receives a phone call from one of her subordinates. She informs Renuka that a liver has been donated by family of an old person, who died his natural death. After relevant tests, it was found that the available liver is fit for Sunil. Incidentally, the liver also fits the medical profile of the CM. Renuka immediately intimates the secretary about this development.

Even though all the facts with regard to the SOP are explicitly clear, the secretary still tries to persuade Renuka for bending the rule in favor of Mr. Gopal Mahto. He explains that if anything untoward happens to the CM, it may lead to chaos and instability in the State. It may also require fresh elections which will be a drain on state exchequer and a drag on the governance process. He also hinted that if Renuka 'bent' the rule, this will be favorable for her career growth in the future. Further, to ease Renuka's conscience, the health secretary assured her that her actions are in larger interest of the state as well as the country. He also reasoned that if Sunil fails to receive a healthy liver in time, he will personally ensure that Sunil's family is well taken care of, and an eligible member of his family is accorded with a government job.

Meanwhile, the time is running out for both Sunil and the CM.

- What are the ethical concerns associated with the above case study?
- What are the options available with Renuka? Analyse the merits and demerits of the options?
- If you were at the place of Renuka, which option would you choose and why?

(20 marks, 250 words)



श्री गोपाल महतो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह एक युवा और ऊर्जस्वी नेता हैं, जो न केवल अपने राज्य में बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनमें भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। एक दिन, सीएम राज्य की राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक ले रहे थे। अचानक उसके पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। सीएम को इस तरह का दर्द काफी समय से महसूस हो रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी इसे नजरअंदाज कर दिया और बैठक जारी रखी। हालांकि, अगले कुछ हफ्तों में दर्द की तीव्रता बढ़ गई और सीएम को डॉक्टर को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाएं दीं और कुछ टेस्ट लिखे। कुछ दिनों के बाद, रिपोर्ट आई और पता चला कि सीएम 'लिवर सिरोसिस' से पीड़ित हैं। यह अंतिम चरण में था और श्री महतो के जीवन के लिए खतरा था। डॉक्टर ने बताया कि बिना किसी देरी के लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प था।

इस आशंका में कि इससे आम जनता, विशेषकर सीएम और उनकी पार्टी के समर्थकों के बीच असजकता पैदा हो सकती है, इस खबर को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य के बहुत कम वरिष्ठ पदाधिकारी ही स्थिति से अवगत थे। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने, चिकित्सा कर्मचारियों के साथ समन्वय करने और सीएम के लिए लिवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

अगले दिन, स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजी) को बुलाया, जो राज्य में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। डीजी, रेणुका को स्थिति से अवगत कराया गया और लिवर प्रत्यारोपण की तत्काल व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, रेणुका ने सचिव को बताया कि अंग प्रत्यारोपण के संबंध में एक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। उन्होंने उन्हें बताया कि प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर पहले से ही सुनील नाम का एक मरीज है, जिसे तत्काल लिवर प्रत्यारोपण की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव को यह भी बताया गया है कि सुनील के पास सफल प्रत्यारोपण के लिए बहुत कम समय बचा है। सुनील 35 साल के हैं, दो बच्चों के पिता हैं और छह लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, जिसमें उनकी पत्नी और बूढ़े माता-पिता भी शामिल हैं।

रेणुका ने सचिव को आगे बताया, एसओपी के अनुसार, सीएम प्रतीक्षा सूची में दूसरे स्थान पर होंगे। संयोग से, रेणुका को उसके एक अधीनस्थ का फोन आता है। वह रेणुका को बताती है कि एक बूढ़े व्यक्ति के परिवार ने उसका लिवर दान किया है, जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। प्रायोगिक परीक्षणों के बाद, यह पाया गया कि उपलब्ध लिवर सुनील के लिए उपयुक्त है। संयोग से, लिवर भी सीएम के मेडिकल प्रोफाइल में फिट बैठता है। रेणुका ने तुरंत सचिव को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया।

भले ही एसओपी के संबंध में सभी तथ्य स्पष्ट हैं, फिर भी सचिव श्री गोपाल महतो के पक्ष में नियम को मोड़ने के लिए रेणुका को मनाने की कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि अगर सीएम के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इससे राज्य में असजकता और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसके लिए नए चुनावों की भी आवश्यकता हो सकती है जो राज्य के खजाने पर बोझ होगा और शासन प्रक्रिया पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि रेणुका ने नियम को तोड़ दिया, तो यह भविष्य में उनके करियर के विकास के लिए अनुकूल होगा। इसके अलावा, रेणुका की अंतर्दृष्टि को शांत करने के लिए, स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके कार्य राज्य के साथ-साथ देश के व्यापक हित में हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि सुनील को समय पर स्वस्थ लिवर नहीं मिल पाता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि सुनील के परिवार की अच्छी तरह से देखभाल की जाए और उनके परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बीच, सुनील और सीएम दोनों के लिए समय समाप्त हो रहा है।

- उपरोक्त मामले के अध्ययन से जुड़ी नैतिक चिंताएँ क्या हैं?
- रेणुका के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? विकल्पों के गुण और दोषों का विश्लेषण कीजिए?
- यदि आप रेणुका के स्थान पर होते, तो आप कौन सा विकल्प चुनते और क्यों? (20 अंक, 250 शब्द)



This case study brings in dilemma of means vs. ends and issue of utilitarianism vs human dignity at focus.



[a] Ethical concerns

- ① Equality before the law (i.e. considering CM and Sunil, same) vs chaos and instability in state
- ② utilitarianism (i.e. greater happiness for greater number — i.e. state and country) vs. categorical imperative (i.e. violating Sunil's dignity)
- ③ concern of state's wellbeing vs concern of Sunil's family

④ For removal → upholding rule of law (i.e. SOP) vs seeing favourable career

⑤ Crisis of conscience ~~and~~ instability in state (for Removal)

⑥ Options available for removal

① Following SOP and giving merit live to sumit dement

① No crisis of conscience ① Instability in state

② Rule of law and constitution upheld ② Health of CM - important  
functionary ignorance is lost

③ Categorical imperative follows

② giving preference to CM and ignoring merit sumit dement

① possible family welfare for sumit's family by secretary's assurance

① violation of SOP creating crisis of conscience



- ① preventing instability in state      ② Equality violated.

③ Contacting other state's health department for extra liver demand, while following SOP (giving it to family merit)

① win-win situation as If liver demanded for CM's life, it would be immediately given

① possible not finding the liver leading to death of CM.

④ If I were at position of Ramesh, I would go with option 3 along with taking permission of Smit's family regarding the decision.

Reason

- ① violating SOP would reduce trust in governance
- ② CM, being important functionary, also comes under equality before law.
- ③ If CM is giving priority, and suppliers may or first instance be happy that he saved, but why vendors would come that- sonil died  
 ↳ his integrity would be questioned rendering him less deserving candidate for PM-ship.

violating one's dignity and equality before the law should not be compromised.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
 Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.12) Mr X is travelling by road with his family to attend a marriage ceremony. His grandfather, who is the head of the family is also travelling with him.

On the way to their destination, all of them stop at a road side restaurant for lunch. This is a well-known restaurant owned by one of the friends of Mr X. The place is known for its tasty and hygienic food.

However, the grandfather notices a picture on the wall of the restaurant and enquires about the religion of the restaurant owner. Mr X's friend belongs to a religion different from the grandfather's religion. The grandfather has a negative attitude towards the religion of Mr X's friend and he insists that he will not eat in that restaurant. He demands that the entire family should leave the restaurant immediately as they are travelling for a happy occasion and eating at this particular restaurant will pollute them. Mr X tries to calm down his grandfather and explain to him that religion has nothing to do with purity or pollution. He also reasons that several travel magazines have rated the restaurant highly, especially for its superior hygiene standards. Also, he points out that there is no restaurant in the way for the next 100 Km and it will be difficult for all to make do without food for that long. However, his arguments fall on deaf ears, and which is more his grandfather admonishes him for bringing the family to the restaurant despite being aware about the religion of the owner. Mr X's friend feels insulted and discriminated against due to his religion. Mr X's father is upset but refuses to say anything out of respect for the grandfather. Entire family is embarrassed by the attitude of the grandfather and they are getting ready to leave the restaurant. Mr X is confused regarding how he should act in this situation.

- What are the various ethical issues in the above case study?
- Imagine yourself in the place of Mr X. Evaluate the different courses of actions available with you. What is the most suitable course of action? (20 marks, 250 words)

मिस्टर X एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। उनके दादा, जो परिवार के मुखिया हैं, भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं।

अपने गंतव्य के रास्ते में, वे सभी दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक रेस्तरां में रुकते हैं। यह मिस्टर X के दोस्तों में से एक के स्वामित्व वाला एक प्रसिद्ध रेस्तरां है। यह स्थान अपने स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन के लिए जाना जाता है।

हालाँकि, दादाजी ने रेस्तरां की दीवार पर एक तस्वीर देखी और रेस्तरां के मालिक के धर्म के बारे में पूछताछ की। मिस्टर X का दोस्त दादा के धर्म से अलग धर्म का है। वह मांग करता है कि पूरे परिवार को तुरंत रेस्तरां छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे एक खुरी के अवसर के लिए यात्रा कर रहे हैं और इस विशेष रेस्तरां में खाने से वे अपवित्र हो जाएंगे। मिस्टर X अपने दादाजी को शांत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि धर्म का पवित्रता या अपवित्रता से कोई लेना-देना नहीं है। उनका यह भी कारण है कि कई यात्रा पत्रिकाओं ने रेस्तरां को उच्च दर्जा दिया है, खासकर इसके बेहतर स्वच्छता मानकों के लिए। साथ ही, वह बताते हैं कि अगले 100 किलोमीटर तक रास्ते में कोई रेस्तरां नहीं है और इतने लंबे समय तक भोजन के बिना गुजारा करना सभी के लिए मुश्किल होगा। हालाँकि, उनकी दलीलें अस्वीकार हो जाती हैं, और इसके अलावा उनके दादाजी उन्हें मालिक के धर्म के बारे में जानकारी होने के बावजूद परिवार को रेस्तरां में लाने के लिए डांटते हैं। मिस्टर X का दोस्त अपने धर्म के कारण अपमानित और भेदभाव महसूस करता है। मिस्टर X के पिता परेशान हैं लेकिन दादाजी के सम्मान में कुछ भी कहने से इनकार करते हैं। दादा के रवैये से पूरा परिवार शर्मिदा है और वे रेस्तरां छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर X इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें इस स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए।

- उपरोक्त मामले के अध्ययन में विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं?
- मिस्टर X के स्थान पर खुद की कल्पना कीजिए। आपके पास उपलब्ध कार्यों के विभिन्न पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? (20 अंक, 250 शब्द)

Forum IAS



This case study highlights rigid and unethical attitude of person of not acknowledging own mistake and dignity of others!

③ Ethical issues

① for Mr. X's friend → respecting own customers vs. insulting behavior of customers.

② for Mr. Y → respecting choice of father vs. respecting his own belief that religion has nothing to do with purity or pollution

③ respecting elders vs discrimination or basis of religion is prohibited

(b) Different courses of action

① to go out from restaurant as per grandfather's wishes

merit  
① It would pacify grandfather

demerit  
① creating <sup>crisis of</sup> conscience at leaving restaurant during  
② fuelling hatred against particular religion

② to keep grandfather out of restaurant and eat with other family members

merit  
① making grandfather's mistake  
② dignity to restaurant owner ensured

demerit  
① grandfather may not be pacified and create chaos

③ Publicly apologising for grandfather's behavior, and taking food packed



for all family members and eat en-route  
 merit | demerit

- ① stopping chaos created by grandfather
- ② Ensures dignity of restaurant owner and all religion

③ Still restaurant owner may feel insulted

Suitable options

, as :

- ① It create chaos created by grandfather at moment.
- ② Restaurant owner may be pacified with public apology.
- ③ grandfather may be convinced about quality of food enroute, otherwise may be allowed to report his choice.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

#	(C)	(A)	(P)
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.  
 Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--

**Mentor Feedback Questions**

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

**Test Goal**

**Outcomes**

1 .....	<input type="checkbox"/>	.....
2 .....	<input type="checkbox"/>	.....
3 .....	<input type="checkbox"/>	.....

**Marking Scheme**

Mark	Good	Average	Below average
10 Marker	3.75 – 5.0	3.0 – 3.5	< 3.0
15 Marker	5.75 – 7.0	4.0 – 5.5	< 4.0
✓✓	Key / Relevant Point		
✗	Vague / Irrelevant		

\* Subject to change without prior notice.